

उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय

जयपुर।

दिनांक— हस्ताक्षर अनुसार

सं. एनडब्ल्यूआर—एचक्यूओपीटीजी(संवनि) / 6 / 2021

वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक — अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर

विषय: शॉटिंग का नियंत्रण

परिचालन संरक्षा परिपत्र संख्या—6

5.13. शॉटिंग का नियंत्रण—

- (1) शॉटिंग कार्य का नियंत्रण स्थावर सिगनल या हैंड सिगनल या मौखिक निर्देशों द्वारा किया जाएगा।
- (2) किन्तु लोको पायलट सिगनलों पर ही पूरी तरह निर्भर न रह कर सदैव चौकस और सतर्क रहेगा।
- (3) जब तक कि विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा प्राधिकृत नहीं कर दिया गया है, शॉटिंग के दौरान गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

स.नि.5.13(1)

- (क) यह नियम लदे हुए या खाली बाक्स और बी.ओ.बी.एस टाइप के बोगी मालडिब्बों पर लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी बनावट अधिक शॉटिंग गति के लिए नहीं है। ऐसे अकेले मालडिब्बे की शॉटिंग की जाये तो माल डिब्बे को अधिकतम अनुमत शॉटिंग गति 5 से 6 कि.मी. प्रति घंटा की सामान्य शॉटिंग गति तक सीमित रहेगी। जब किसी भी सिरे पर ट्राजीक्षण कपलरों के साथ आपस में जोड़े गए दो या अधिक बाक्स या बी.ओ.बी.एस मालडिब्बों के ग्रुप की शॉटिंग की जाये तो शॉटिंग गति लगभग 2 कि.मी.प्रति घंटा बहुत धीमी पैदल चलने की गति के अनुरूप होगी।
- (ख) विस्फोटक, गैस, पेट्रोलियम, ज्वलनशील द्रव्य और ठोस वस्तुओं ऑक्सीडाइजिंग तत्वों, तेजाब, संक्षारक तथा जहरीले पदार्थों के माल डिब्बों के लिए शॉटिंग गति, भारतीय रेल सम्मेलन संघ (आईआरसीए) द्वारा जारी की गयी रेड टेरिफ के अनुसार होगी।

स.नि.5.13(2)

- (क) (i) जब किसी गाड़ी की शॉटिंग की जानी हो तो शॉटिंग आदेश (टी/806) जारी किया जायेगा। स्टेशन मास्टर टी/806 फार्म जारी करेगा जिस पर गाड़ी के ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- (ii) उन कोचिंग अथवा गुडस यार्डों में, जहाँ नियमित रूप से शॉटिंग होती रहती है, और शॉटिंग शंटर द्वारा की जाती है, यार्ड शॉटिंग स्टॉफ द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, वहां टी/806 जारी करना आवश्यक नहीं है। ऐसे स्थानों पर स्टेशन मास्टर/यार्ड मास्टर द्वारा स्टेशन के संचालन नियमों के अनुसार लिखित में शॉटिंग कार्य आदेश दिए जा सकते हैं अथवा मौखित रूप से ऐसे निर्देश दिये जा सकते हैं।
- (iii) गाड़ियों के कर्षण को बदलने के लिए इंजनों को जोड़ने और अलग करने के लिए अथवा इंजन को बदलने के लिए, या उनके उलट-पुलट (रिवर्सल) के लिए, जहाँ ऐसी गतिविधियाँ (मूवमेंट) नियमित रूप से होती रहती हैं, वहाँ फार्म टी/806 दिया जाना आवश्यक नहीं होता।
- (iv) शॉटिंग आदेश केवल किये जाने वाले कार्य को दर्शायेंगे। शॉटिंग संचालन के लिये सा. एवं सहा. नियमों तथा स्टेशन संचालन नियमों में दी गई कार्य पद्धति अपनायी जायेगी।
- (ख) जिन स्टेशनों पर शॉटिंग जमादार की व्यवस्था न की गई हो, उन स्टेशनों पर शॉटिंग का पर्यवेक्षण करते समय यदि ट्रेन मैनेजर द्वारा विशेष एहतियात बरती जानी आवश्यक हो, तो उन स्टेशनों पर शॉटिंग आदेश फार्म टी/806 में स्पष्ट रूप से इस संबंध में निर्देश दर्ज किए जायेंगे।

जिन स्टेशनों पर शॉटिंग कर्मचारियों की व्यवस्था है, वहां यार्ड मास्टर या स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि ऐसे एहतियातों का पूरी तरह पालन किया जाता है।

स.नि.5.13(3) इंजन बदलने वाले जंकशन या गाड़ी के अन्तिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशनों पर सवारी तथा मिश्रित गाड़ियों की शॉटिंग— इंजन बदलने वाले जंकशन या टर्मिनल को छोड़कर अन्य स्टेशन पर, चाहे पूरी गाड़ी शंट करनी हो अथवा उसका कोई भाग, गाड़ी की सुरक्षित शॉटिंग करने के लिए सवारी/मिश्रित गाड़ी का ट्रेन मैनेज़र इंचार्ज जिम्मेदार है, चाहे वहां शॉटिंग जमादार की व्यवस्था हो या न हो। इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित बातों के लिए भी जिम्मेदार है—

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही वाहन जोड़ा या काटा गया है,
- (ii) कि गाड़ी के जिस भाग की शॉटिंग हो रही है वह उसके साथ जाने और आवश्यक सिगनल देने के लिए।
- (iii) कि स.नि.5.14(1) के अनुसार सभी कांटे सही सेट किए जाते हैं और जिस सम्मुख कांटों पर शॉटिंग हो रही है उन पर ताले लगा दिये गये हैं।

जब वाहन में यात्री हों और शॉटिंग करनी हो तो शॉटिंग कराने वाला व्यक्ति कम—से—कम दो बार सीटी बजाकर और ऊंची आवाज में घोषणा करके कि उनके वाहनों की शॉटिंग होनी है, यात्रियों को चेतावनी अवश्य देनी चाहिये। शॉटिंग संचालन तब तक आरम्भ नहीं किया जायेगा जब तक सभी दरवाजे बन्द न कर दिए जाएं और पायदान यात्रियों से खाली नहीं हो गया हो।

स.नि.5.13(4) इंजन बदलने वाले या जंकशन या टर्मिनल स्टेशन पर सवारी और मिश्रित गाड़ियों की शॉटिंग— इंजन बदलने वाले या जंकशन या टर्मिनल स्टेशन पर यार्ड मास्टर, यदि यार्ड मास्टर न हो तो, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, सवारी और मिश्रित गाड़ियों, चाहे पूरी गाड़ी हो या उसका कोई भाग, की सुरक्षित शॉटिंग के लिए जिम्मेदार होगा तथा वह इनके लिए भी जिम्मेदार होगा।

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही वाहन जोड़ा या काटा जाता है।
- (ii) गाड़ी के उस भाग के साथ जाने के लिए जिसकी शॉटिंग की जा रही है और आवश्यक सिगनल देने के लिए।
- (iii) उन सभी कांटों को सही सेट करने और सम्मुख कांटों को ताला बन्द करने के लिए जिन पर सहायक नियम 5.14(1) के अनुसार शॉटिंग की जाती है। ऐसे किसी स्टेशन पर जहां यह कार्य न तो यार्ड मास्टर और न ही स्टेशन मास्टर कर सकते हों तो वहां मण्डल रेल प्रबन्धक कार्य संचालन नियमों या कर्मचारियों की कर्तव्य सूची (ड्यूटी लिस्ट) में उन व्यक्तियों का उल्लेख करेगा जो यह कार्य करेंगे।

जब किसी ऐसे वाहन की शॉटिंग की जानी हो जिसमें यात्री सवार हों, तो शॉटिंग कराने वाला व्यक्ति शॉटिंग प्रारम्भ करने से पहले यात्रियों को चेतावनी देगा कि डिब्बों की शॉटिंग की जाने वाली है। यह चेतावनी देने के लिए वह कम से कम दो बार सीटी बजायेगा और ऊंचे स्वर में यात्रियों को बतायेगा कि शॉटिंग की जानी है। शॉटिंग संचालन तब तक आरम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि सब दरवाजे बन्द न कर दिए जाये और पायदान यात्रियों से खाली न हों।

स.नि.5.13(5)(क) जिस स्टेशन पर शॉटिंग जमादार की व्यवस्था नहीं है, वहां मालगाड़ियों की शॉटिंग ट्रेन मैनेज़र की देख रेख में होगी।

मालगाड़ी का ट्रेन मैनेज़र जिम्मेदार है—

- (i) अपनी गाड़ी में से किसी वाहन के जोड़ने और काटने के लिए। उसे स्वयं शॉटिंग की देखरेख और आवश्यक संकेत देने चाहिये। शॉटिंग करने के आवश्यक अनुदेश ट्रेन मैनेज़र को ड्यूटी का स्टेशन मास्टर देगा।
- (ii) गाड़ी के जिस भाग की शॉटिंग हो रही है उसके साथ जाने के लिए।
- (iii) उन सारे कांटों को सही सेट किए जाने के लिए जिन पर शॉटिंग की जानी हैं।
- (iv) स.नि.5.14(1) के अनुसार सम्मुख कांटों को ताला लगाने के लिए, जिन कांटों पर शॉटिंग की जानी है।

(ख) जब किसी छोटे स्टेशन पर कोई बॉक्स मालडिब्बा गाड़ी में जोड़ा या उसमें से काटा जाये तो ट्रेन मैनेज़र यह देखेगा कि खाली/लदे बॉक्स माल डिब्बे की सैटिंग सही है।

स.नि.5.13(6) जिस स्टेशन पर शॉटिंग जमादार की व्यवस्था है, वहां माल गाड़ियों की शॉटिंग –

- (क) ड्यूटी के स्टेशन मास्टर के अनुदेशों के अनुसार माल गाड़ियों के वाहनों को जोड़ने और काटने का काम शॉटिंग जमादार को करना होगा। परिवहन नियंत्रक इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि शॉटिंग जमादार शॉटिंग संचालन से संबंधित नियमों को समझते हैं और जिन स्टेशनों पर उतार या चढ़ाव (ग्रेडिएण्ट) हैं वहां शॉटिंग की जाती है तो शॉटिंग जमादार द्वारा सभी आवश्यक एहतियात बरते जाते हैं। शॉटिंग जमादार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स.नि.5.14(1) का पालन किया जाता है।
- (ख) सही वाहन को उसकी गाड़ी में जोड़ने या काटने के लिए हर स्थिति में ट्रेन मैनेज़र को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

स.नि.5.13(7) स्टेशन यार्ड में पूरी गाड़ियों के शॉटिंग के लिए ट्रेन मैनेज़र की जिम्मेदारी— जब भी किसी प्रकार पूरी गाड़ियों को एक लाइन से दूसरी लाइन पर शंट करना हो, साइडिंग में लगाना या वहां से निकलाना हो, जैसे क्रासिंग करते समय या दूसरी गाड़ी को अग्रता देते समय, गाड़ी का इचार्ज ट्रेन मैनेज़र शॉटिंग का पर्यवेक्षण करेगा और निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होगा।

- (क) कि कांटे और क्रासिंग सही सैट किए गए हैं और स.नि.5.14(1) के अनुसार शंट के लिए सम्मुख कांटों में ताले लगा दिए गए हैं।
- (ख) शॉटिंग करने वाले लोको पायलट को आवश्यक संकेत दिखाने के लिए, और
- (ग) शॉटिंग के बाद यह देखने के लिए कि उल्लंघन चिन्ह साफ है।

स.नि.5.13(8) मैटीरियल ट्रेनों की शॉटिंग की ट्रेन मैनेज़र द्वारा पर्यवेक्षण— जिन वाहनों को जोड़ना या काटना है उनकी शॉटिंग पूर्ण रूप से गाड़ी के इंचार्ज ट्रेन मैनेज़र की निजी पर्यवेक्षण में होगी जो स्वयं आवश्यक संकेत दिखाने के लिए जिम्मेदार है। शॉटिंग आरम्भ करने से पहले वह ड्यूटी के स्टेशन मास्टर के अनुदेश अवश्य प्राप्त करे। शॉटिंग के दौरान यदि कोई कर्मकार है तो उनकी सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतने की जिम्मेदारी भी ट्रेन मैनेज़र की होगी।

स.नि.5.13(9) माल या अन्य साइडिंगों के अन्दर अथवा बाहर, जहाँ माल का लदान और उत्तराई हो रही है, वहाँ कर्मचारियों को सावधान करने और सावधानी से शॉटिंग कराने की जिम्मेदारी— जिन वाहनों पर माल के लदान या उत्तराई का काम हो रहा है उनकी या उन पर शॉटिंग आरम्भ करने से पहले उन वाहनों पर काम करने वाले कलर्क या अन्य पदाधिकारियों को सावधान करने की जिम्मेदारी उस कर्मचारी की मानी जायेगी जिसकी पर्यवेक्षण में शॉटिंग हो रही है। इसके लिए कलर्क या अन्य पदाधिकारी की अनुमति अवश्य ली जानी चाहिये और सूचना मिलने के बाद इस कार्य से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी को शीघ्रता से सावधान करने की जिम्मेदारी उसकी होगी जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक जिन वाहनों पर काम हो रहा है उनके साथ हैंड शॉटिंग या लूज शॉटिंग, जिसमें उन लाइनों का उल्लंघन होता हो अथवा जिस पर काम हो रहा हो, शॉटिंग नहीं की जायेगी।

स.नि.5.13(10) ऑधी के मौसम में शॉटिंग— जब आंधी के मौसम में शॉटिंग करनी हो तो शॉटिंग यथासंभव कम लाइनों तक सीमित रखी जाये। प्रत्येक वाहन को, जो साइडिंग में रखा जाता है, पहले से रखे हुए किसी अन्य वाहन से जोड़ दिया जाये और उसके ब्रेक गिरा दिये जायें। जब किसी साइडिंग पर शॉटिंग समाप्त हो जाये तो इसके बाद वाहनों को अवश्य जोड़ देना चाहिए और आखिरी वाहनों के पहियों में गुटटी रोक (स्प्रेंग्स) लगा देना चाहिए और जंजीर से बांध देना चाहिए।

स.नि.5.13(11) जुड़वा (कपल्ड) इंजनों से शॉटिंग:- जुड़वा इंजन से शॉटिंग की अनुमति नहीं है, सिवाय—

- (क) जब पूरी गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पर शंट करनी हो।
- (ख) जब उतार या चढ़ाव (ग्रेडिएण्ट) के कारण शंट किया जाने वाला भार (लोड) एक इंजन से न खींचा जा सके।

स.नि.5.13(12) शॉटिंग संचालन के दौरान जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) को साफ करना— शॉटिंग कार्य से सम्बन्धित सभी कर्मचारी शॉटिंग अवधि में रेल क्रासिंगों को साफ रखने और गाड़ियों के गुजरने के लिए जिम्मेदार होंगे। दो लाइनों के बीच क्लीयरेंस का पॉइंट सफेद स्लीपर द्वारा दर्शाया जाता है।

स.नि.5.13(13) वाहनों की हैंड शॉटिंग— जब किसी वाहन की हैंड शॉटिंग आवश्यक हो तो इसकी देख-रेख एक जिम्मेदार अधीनस्थ कर्मचारी को ही करनी चाहिए। मजदूरों या अन्य व्यक्तियों के बफर को धक्का देकर वाहनों की हैंड शॉटिंग नहीं करने दी जानी चाहिये। वे या तो वाहनों के दोनों बफरों के बीच धक्का दें, या पटरियों से बाहर रहते हुये वाहनों को बगल से धक्का दें। स्टेशन कर्मचारी वर्ग के किसी जिम्मेदार सदस्य की आज्ञा से और उसकी व्यक्तिगत देख-रेख

के सिवाय स्टेशन पर ठेकेदारों और व्यापारियों के मजदूरों को वाहन हटाने की आज्ञा न दी जाए। उक्त अनुदेश व्यापारियों की साइडिंगों पर और प्लिंथ सर्विंग साइडिंगों पर और ऐसी ही दूसरी जगहों पर है जो व्यक्तिगत व्यापारों के लिए नियत है, पर वाहनों के संचालन पर लागू नहीं होंगे।

स.नि.5.13(14) चलते वाहनों को काटना— हम्प यार्ड में धीमी गति के अलावा, चलते वाहनों को अलग करना मना है।

स.नि.5.13(15) यात्रियों को वहन करने वाला कोई वाहन किसी स्टेशन पर रुकी हुई यात्रियों का वहन करने वाली गाड़ी के पीछे अवरुद्ध हुई लाइन पर खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।

स.नि.5.13(16) जब मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों में सवारी डिब्बे जोड़ने या काटने के लिए शंटिंग करनी हो तो शंटिंग इंजन को जोड़ने के लिए चलने से पहले गाड़ी से 20 मीटर दूर अवश्य रोका जाना चाहिए।

स.नि.5.13(17) यदि किसी स्टेशन की चालू लाइन पर कोई गाड़ी अथवा यात्रियों से भरे वाहन खड़े हों तो गाड़ी इंजन या बैंकिंग इंजन या शंटिंग इंजन, जिससे उस गाड़ी को शंटिंग करनी हो तो उसके सिवाय दूसरे इंजन को स्टेशन की परिचालित लाइन पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे इंजन के संचालन की अनुमति सिर्फ शंटिंग इंचार्ज के नियंत्रण में होनी चाहिए।

स.नि.5.13(18) सवारी गाड़ी की रनिंग लाइन के समीप की यार्ड लाइनों पर से माल डिब्बों अथवा अन्य स्टॉक जिस पर मरम्मत अथवा क्षतिग्रस्त का लेबिल लगा हो, अथवा उसमें लदा माल खतरे की सीमा से बाहर की ओर निकला हुआ हो, उनके शंटिंग समय का नियमन कुछ इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि सवारी गाड़ी संचलन और उक्त शंटिंग में पर्याप्त अन्तर रहे। प्रत्येक मामले में कर्मचारियों को अत्याधिक सावधान रहना चाहिए और यदि तत्काल शंटिंग की आवश्यकता पड़ जाए तो भी आवश्यक सावधानी पूर्ण रूप से बरती जानी चाहिए।

नोट:- सवारी गाड़ी की शंटिंग के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी शंटिंग जमादार की रेंक से नीचे के कर्मचारी में निहित नहीं होनी चाहिये।

उ.प.र. की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक में वर्णित सामान्य नियम एवं सहायक नियम 5.13 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये एवं शंका होने पर अंग्रेजी संदर्भ देखें।

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक (सं. व नि.)